

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिराटन कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक्र० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/225

दिनांक - 17/08/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल ने स्वच्छता को बनाया जन अभियान

स्वच्छता पखवाड़े के दौरान कंपनी क्षेत्रों में आयोजित हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम
भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े में कंपनी के विभिन्न क्षेत्र (एरिया) एवं इकाइयां बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 16 अगस्त से शुरू हुए पखवाड़े में कंपनी के क्षेत्रों एवं इकाइयों में न सिर्फ बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि स्वच्छता जागरूकता को जन अभियान बनाए जाने हेतु कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पखवाड़े के पहले दिन बुधवार को कंपनी मुख्यालय एवं कंपनी के सभी क्षेत्रों व इकाइयों में अधिकारियों-कर्मचारियों ने स्वच्छता शपथ ली। एनसीएल परिवार के सदस्यों ने शपथ ली कि वे हर वर्ष 100 घंटे यानी हर हफ्ते 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करेंगे। उन्हें गांव-गांव और गली-गली में स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करने का भी संकल्प लिया।

इसी कड़ी में अमलोरी क्षेत्र ने गुरुवार को स्थानीय अमझर गांव में 100 फलदार पौधों का वितरण किया और इसी गांव में सफाई अभियान चलाया।

बीना क्षेत्र में गुरुवार को डीएवी बीना के बच्चों के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री बिपिन कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लगभग 300 बच्चों द्वारा निकाली गई इस रैली ने बीना टाउनशिप तथा स्थानीय जामशिला एवं बरवानी गावों में स्वच्छता का अलख जगाया।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

ब्लॉक बी क्षेत्र द्वारा गुरुवार को स्थानीय 05 गांवों सोलंग, पडरी, नौडिया महदइया और गोरबी में कुल 500 फलदार पौधे वितरित किए गए। इससे पूर्व क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री एस.के. गोमास्ता के नेतृत्व में महाप्रबंधक कार्यालय परिसर की साफ-सफाई की गई।

केंद्रीय कर्मशाला (सीडब्ल्यूएस) में महाप्रबंधक श्री ए.के. त्रिपाठी के नेतृत्व में 32 अधिकारियों-कर्मचारियों का एक टास्क फोर्स बनाया गया, जिनके द्वारा पखवाड़े के दौरान कार्यालय परिसर, विद्यालय परिसर तथा गर्दा व जैतपुर गांवों में स्वच्छता जागरुकता के साथ-साथ पौधारोपण कार्य किया जाएगा। इस टास्क फोर्स ने पौधारोपण के साथ अपने मुहिम की शुरुआत कर दी।

दुधीचुआ क्षेत्र द्वारा स्थानीय स्कूलों में भी बुधवार को स्वच्छता शपथ दिलाई गई तथा गुरुवार को इन स्कूलों में स्वच्छता जागरुकता हेतु कला एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। जयंत क्षेत्र ने बुधवार को स्थानीय गोल मार्केट में सफाई अभियान चलाया।

झिंगुरदा क्षेत्र में बुधवार को डीएवी एवं सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चों द्वारा स्वच्छता रैली निकाली गई। साथ ही, सरस्वती शिशु मंदिर में प्रश्न मंच, निबंध व स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई और इसी स्कूल के बच्चों द्वारा स्थानीय बाजार में स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।

ककरी क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री एल.पी. गोडसे के नेतृत्व में महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में सफाई कार्य किया गया। साथ ही, टीम ककरी द्वारा डीएवी

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

स्कूल के बच्चों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई एवं विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की गई।

निगाही क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री चंचल गोस्वामी के नेतृत्व में स्थानीय विवेकानंद विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। महाप्रबंधक कार्यालय परिसर की सफाई की गई। साथ ही, सरस्वती शिशु मंदिर एवं नंद गांव में सफाई की गई।

कृष्णशिलाक्षेत्र में कचरे के समुचित निपटारे के प्रति जागरूकता फैलाए जाने के उद्देश्य से एक लघु फिल्म दिखाई गई तथा स्थानीय माध्यमिक विद्यालय कोहरौल एवं प्राथमिक विद्यालय कोहरौलिया के परिसर की सफाई टीम कृष्णशिला द्वारा की गई।

गौरतलब है कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान कंपनी के हर क्षेत्र एवं इकाई में प्रचार-प्रसार हेतु बड़ी संख्या में पोस्टर एवं बैनर लगाए गए हैं। पखवाड़ा 31 अगस्त तक चलेगा।

जनसंपर्क अधिकारी